

लोन आवेदन फॉर्म (वाहन)

कृपया फॉर्म को सिर्फ बड़े अक्षरों में और काले रंग की इंक से भरें।



तारीख

व्हील्स

☐ ऑटो ☐ व्यावसायिक वाहन ☐ दोपहिया ☐ ट्रैक्टर ☐ कंस्ट्रक्शन से जुड़ा उपकरण

सुविधा का प्रकार	अमाउंट (INR)	अवधि (महीने में)	गिरवी संपत्ति/सिक्योरिटी ऑफर की गई(हां/नहीं)	सुविधा का प्रकार	अमाउंट (INR)	अवधि (महीने में)	गिरवी संपत्ति/सिक्योरिटी ऑफर की गई(हां/नहीं)
नया				इस्तेमाल किया गया			
वाहन के लिए सुरक्षित लोन							
एग्जी टर्म लोन				पर्सनल टर्म लोन			
बिज़नेस टर्म लोन							

A. आवेदक का विवरण (दो शब्दों के बीच जगह छोड़ें)

मौजूदा ग्राहक ☐ नए ग्राहक ☐ यदि मौजूदा ग्राहक हैं, तो ग्राहक ID CKYCR नंबर

☐ मेरे/हमारे KYC में बदलाव [विवरण/दस्तावेज़ सबमिट करें] ☐ मेरे/हमारे KYC में कोई बदलाव नहीं [री-KYC की आवश्यकता नहीं है तथा KYC आज की तारीख तक मान्य है]

संगठन ☐ व्यक्तिगत ☐ व्यक्तिगत मालिकाना हक ☐ पार्टनरशिप फ़र्म ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ पब्लिक लिमिटेड ☐ सोसाइटी ☐ ट्रस्ट ☐ अन्य

नाम
☐ पिता का नाम
या ☐ पति/पत्नी का नाम

माता का नाम

मोबाइल नंबर +91 टेलीफोन नंबर (R) टेलीफोन नंबर (O)

ईमेल ID

धर्म ☐ हिंदू ☐ ईसाई ☐ इस्लाम ☐ सिख ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ अन्य लिंग ☐ M ☐ F ☐ T ☐ ^ ☐ थर्ड जेंडर

वर्ग ☐ सामान्य ☐ SC ☐ ST ☐ OBC ☐ अन्य

वैवाहिक स्थिति ☐ अविवाहित ☐ विवाहित ☐ तलाक़शुदा ☐ विधवा ☐ अलग ☐ राष्ट्रीयता/जन्म का देश ☐ भारतीय ☐ अन्य जन्म तिथि

जन्म स्थान/पंजीकरण का स्थान बिज़नेस शुरू करने की तिथि

PAN नंबर फॉर्म 60 (कृपया फॉर्म 49A दें, अगर PAN लागू किया गया है) ☐ आवासीय स्थिति ☐ निवासी ☐ गैर-निवासी ☐ OCI/PIO ☐ विदेशी नागरिक

GST नंबर UDYAM नंबर नागरिकता

क्या आप राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं

क्या आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं अगर हाँ ☐ बीमार/वृद्ध/असमर्थ ☐ नेत्रहीन/दृष्टिबाधित ☐ अन्य

शैक्षणिक योग्यता ☐ निरक्षर ☐ 10वीं से कम ☐ मैट्रिक (10वीं) ☐ इंटरमीडिएट (12वीं) ☐ ग्रेजुएट ☐ पोस्ट-ग्रेजुएट और उससे ऊपर ☐ अन्य

क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के टैक्स देने वाले निवासी हैं? ☐ नहीं ☐ हाँ (यदि हाँ, तो कृपया अलग से FATCA/CRS घोषणा फॉर्म भरें)

क्या आप GST के तहत परिभाषित, AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक के किसी संबंधित पक्ष से जुड़े हैं? ☐ हाँ ☐ नहीं *क्या आप इस अकाउंट को आधार से जोड़ना चाहते हैं ☐ हाँ ☐ नहीं

पता पंक्ति 1
लैंड मार्क शहर
जिला राज्य पिन कोड
देश ☐ भारत ☐ अन्य वर्तमान शहर में निवास के वर्ष वर्तमान आवास में निवास के वर्ष
संपत्ति की स्थिति ☐ खुद मालिक ☐ किराये का ☐ कंपनी द्वारा प्रदान किया गया ☐ पैरेंटल ☐ अन्य

पता पंक्ति 1
लैंड मार्क शहर
जिला राज्य पिन कोड
देश ☐ भारत ☐ अन्य संपत्ति की स्थिति ☐ खुद मालिक ☐ किराये का ☐ कंपनी द्वारा प्रदान किया गया ☐ पैरेंटल ☐ अन्य

KYC विवरण ☐ पहचान ☐ पासपोर्ट ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ आधार ☐ वोटर ID ☐ अन्य

का प्रमाण ☐ ID नंबर समाप्ति की तिथि (यदि लागू हो)

पते का प्रमाण ☐ पासपोर्ट ☐ ड्राइविंग लाइसेंस ☐ आधार ☐ वोटर ID ☐ अन्य

पेशा ☐ वेतनभोगी ☐ सरकारी ☐ स्व-रोज़गार कृषि ☐ स्व-नियोजित पेशेवर ☐ रिटायर ☐ विद्यार्थी ☐ गृहिणी ☐ अन्य

कुल वार्षिक आय (INR) ☐ 1-250000 ☐ 250001-500000 ☐ 500001-1000000 ☐ 1000001-2000000 ☐ 2000001-2500000

आय (INR) ☐ 2500001-5000000 ☐ 5000001-10000000 ☐ >1 करोड़

नियोक्ता/बिज़नेस की जानकारी ☐ संस्था/नियोक्ता का नाम कुल अनुभव वर्ष महीने

बिज़नेस ☐ निर्माता ☐ सेवा देने वाले ☐ ट्रेडर/दुकानदार ☐ कृषि और संबंधित गतिविधियाँ ☐ अन्य

बिज़नेस के प्रकार 1. 2.

बिज़नेस की संरचना ☐ व्यक्तिगत मालिकाना हक ☐ पार्टनरशिप फ़र्म ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ अन्य संस्था का ☐

बिज़नेस परिसर ☐ खुद मालिक (गिरवी रखा हुआ ☐ निःशुल्क) ☐ किराये का ☐ पैरेंटल ☐ अन्य

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

शहर जिला पिन कोड

लैंड मार्क राज्य देश ☐ भारत ☐ अन्य

लाभकारी मालिकों/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और जानकारी

नाम	उम्र	लिंग	पद	शेयर (% में)	संपर्क नंबर	ID प्रमाण

कृपया हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो यहाँ चिपकाएं और फोटो पर हस्ताक्षर करें

कृपया फोटो पर पिन, टेप या स्टेपल का इस्तेमाल न करें

आवेदक का हस्ताक्षर

B. सह-आवेदक की जानकारी(दो शब्दों के बीच जगह छोड़ें)

मौजूदा ग्राहक

नए ग्राहक

यदि मौजूदा ग्राहक है, तो ग्राहक ID

CKYCR नंबर

मेरे/हमारे KYC में बदलाव [विवरण/दस्तावेज़ सबमिट करें]

मेरे/हमारे KYC में कोई बदलाव नहीं [री-KYC की आवश्यकता नहीं है तथा KYC आज की तारीख तक मान्य है]

संगठन

व्यक्तिगत

व्यक्तिगत मालिकाना हक

पार्टनरशिप फर्म

प्राइवेट लिमिटेड

पब्लिक लिमिटेड

सोसाइटी

ट्रस्ट

अन्य

नाम

पिता का नाम

या

पति/पत्नी का नाम

माता का नाम

मोबाइल नंबर +91

टेलीफोन नंबर (R)

टेलीफोन नंबर (O)

ईमेल ID

धर्म

हिंदू

ईसाई

इस्लाम

सिख

बौद्ध

जैन

अन्य

लिंग

M

F

T

^

^थर्ड जेंडर

वर्ग

सामान्य

SC

ST

OBC

अन्य

वैवाहिक स्थिति

अविवाहित

विवाहित

तलाकशुदा

विधवा

अलग

राष्ट्रीयता/जन्म का देश

भारतीय

अन्य

जन्म तिथि/पंजीकरण की तिथि

D

D

M

M

Y

Y

Y

Y

PAN नंबर

फॉर्म 60

(कृपया फॉर्म 49A दें, अगर PAN लागू किया गया है)

आवासीय स्थिति

निवासी

गैर-निवासी

OCI / PIO

विदेशी नागरिक

GST नंबर

UDYAM नंबर

नागरिकता

क्या आप राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हैं?

हाँ

नहीं

क्या आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं?

हाँ

नहीं

अगर हाँ

बीमार/वृद्ध/असमर्थ

नेत्रहीन/दृष्टिबाधित

अन्य

स्पष्ट करें

शैक्षणिक योग्यता

निरक्षर

10वीं से कम

मैट्रिक (10वीं)

इंटरमीडिएट (12वीं)

ग्रेजुएट

पोस्ट-ग्रेजुएट और उससे ऊपर

अन्य

स्पष्ट करें

क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के टैक्स देने वाले निवासी हैं?

नहीं

हाँ

(यदि हाँ, तो कृपया अलग से FATCA/CRS घोषणा फॉर्म भरें)

आवेदक के साथ संबंध

जन्म स्थान/पंजीकरण का स्थान

पता 1

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

लैंड मार्क

जिला

राज्य

देश

भारत

अन्य

वर्तमान शहर में निवास के वर्ष

वर्तमान आवास में निवास के वर्ष

संपत्ति की स्थिति

खुद मालिक

किराये का

कंपनी द्वारा प्रदान किया गया

पैरेंटल

अन्य

पता 2

पता पंक्ति 1

लैंड मार्क

जिला

राज्य

देश

भारत

अन्य

संपत्ति की स्थिति

खुद मालिक

किराये का

कंपनी द्वारा प्रदान किया गया

पैरेंटल

अन्य

KYC विवरण

पहचान का प्रमाण

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

आधार

वोटर ID

अन्य

ID नंबर

समाप्ति की तिथि

(यदि लागू हो)

पते का प्रमाण

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

आधार

वोटर ID

अन्य

पेशा

वैतनभोगी

सरकारी निजी सार्वजनिक

स्व-रोज़गार कृषि

स्व-नियोजित पेशेवर

रिटायर

विद्यार्थी

गृहिणी

अन्य

कुल वार्षिक आय (INR)

1-250000

250001-500000

500001-1000000

1000001-2000000

2000001-2500000

2500001-5000000

5000001-10000000

>1करोड़

विदेशी करेंसी से जुड़ा जोखिम हाँ

नहीं

नियोक्ता/बिज़नेस की जानकारी

संस्था/नियोक्ता का नाम

कुल अनुभव नौकरी/बिज़नेस में

वर्ष

महीने

बिज़नेस का नेचर

निर्माता

सेवा देने वाले

ट्रेडर/दुकानदार

कृषि और संबंधित गतिविधियाँ

बिज़नेस के प्रकार

1.

2.

बिज़नेस की संरचना

व्यक्तिगत मालिकाना हक

पार्टनरशिप फ़र्म

प्राइवेट लिमिटेड

अन्य

संस्था का प्रमाण

बिज़नेस परिसर

खुद मालिक

(गिरवी रखा हुआ नि:शुल्क)

किराये का

पैरेंटल

अन्य

पता

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

शहर

जिला

पिन कोड

लैंड मार्क

राज्य

देश

भारत

अन्य

कृपया हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो यहाँ चिपकाएं और फोटो पर हस्ताक्षर करें

कृपया फोटो पर पिन, टेप या स्टेपल का इस्तेमाल न करें

आवेदक का हस्ताक्षर

लाभकारी मालिकों/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और जानकारी

नाम	उम्र	लिंग	पद	शेयर (% में)	संपर्क नंबर	ID प्रमाण

C. रैफ़रेंसेस

रैफ़र 1

नाम

मोबाइल नंबर

9

1

आवेदक के साथ संबंध

वर्षों से परिचय

रैफ़र 2

नाम

मोबाइल नंबर

9

1

आवेदक के साथ संबंध

D. प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी

फॉर्म क्रेडिट

व्यक्तिगत किसान जो सहायक गतिविधियाँ जैसे कि डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन में शामिल हैं। भूमि (एकड़ में)

0-2.47

2.48-4.94

4.95 और उससे ज्यादा

बताएँ (एकड़):

लोकेशन:

पिन :

कृषि संरचना:

कृषि उपज/प्रोडक्ट्स को संग्रहित करने के लिए गोदामों, मंडी यार्ड्स, गोदामों और साइलो सहित ठंडे भंडारण सुविधाओं (कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण के लिए लोन

संबंधित गतिविधियाँ:

खादय और कृषि प्रसंस्करण

विनिर्माण या सेवा उद्यम :

P&M या उपकरण में निवेश :

INR 1 करोड़ तक .

> INR 1 करोड़ से INR 10 करोड़ तक

> INR 10 करोड़ से INR 50 करोड़ तक

> 50 करोड़

निवेश की कीमत (WDV) :

सालाना टर्नओवर :

INR 5 करोड़ तक

> INR 5 करोड़ से INR 50 करोड़ तक

> INR 50 करोड़ से INR 250 करोड़ तक

> 250 करोड़

सालाना टर्नओवर :

(पेशेवर/गैर-पेशेवर/SRTO/ट्रेड/रिटेल ट्रेड)

खादी और ग्रामीणोद्योग (KVI सेक्टर)

घोषणा :मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि वाहन जिसे खरीदा गया/खरीदा जाना है/जिसके लिए लोन लिया गया/लिए जाने वाला लोन इस्तेमाल में लाया जाएगा

कृषि के प्रयोजन के लिए कृषि उपज और/या कृषि इनपुट, कृषि उपज और कृषि प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट में सहायता करना।

बिज़नेस के उद्देश्य के लिए : मैं/हम यह समझते हैं कि इस प्रतिनिधित्व, घोषणा और पुष्टि के आधार पर ही आपने मेरे लोन आवेदन को प्राथमिक क्षेत्र अंशियों के तहत वित्तीय सहायता के लिए विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। मैं/हम बैंक को किसी भी हानि या नुकसान की स्थिति में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य होंगे, अगर वह मेरी/हमारी झूठी/गलत घोषणा के कारण पैदा होती है।

E. गारंटर की जानकारी (दो शब्दों के बीच जगह छोड़ें)

मौजूदा ग्राहक

नए ग्राहक

यदि मौजूदा ग्राहक है, तो ग्राहक ID

CKYCR नंबर

मेरे/हमारे KYC में बदलाव [विवरण/दस्तावेज़ सबमिट करें]

मेरे/हमारे KYC में कोई बदलाव नहीं [री-KYC की आवश्यकता नहीं है तथा KYC आज की तारीख तक मान्य है]

संगठन

व्यक्तिगत

व्यक्तिगत मालिकाना हक

पार्टनरशिप फर्म

प्राइवेट लिमिटेड

पब्लिक लिमिटेड

सोसाइटी

ट्रस्ट

अन्य

नाम

पिता का नाम

या

पति/पत्नी का नाम

माता का नाम

मोबाइल नंबर +91

टेलीफ़ोन नंबर (R)

टेलीफ़ोन नंबर (O)

ईमेल ID

धर्म

हिंदू

ईसाई

इस्लाम

सिख

बौद्ध

जैन

अन्य

लिंग

M

F

T

^

^थर्ड जेंडर

वर्ग

सामान्य

SC

ST

OBC

अन्य

वैवाहिक स्थिति

अविवाहित

विवाहित

तलाकशुदा

विधवा

अलग

राष्ट्रीयता/जन्म का देश

भारतीय

अन्य

जन्म तिथि/पंजीकरण की तिथि

DD

MM

YY

YY

PAN नंबर

फॉर्म 60

(कृपया फॉर्म 49A दें, अगर PAN लागू किया गया है)

आवासीय स्थिति

निवासी

गैर-निवासी

OCI / PIO

विदेशी नागरिक

GST नंबर

क्या आप राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित हैं?

हाँ

नहीं

नागरिकता

क्या आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं?

हाँ

नहीं

अगर हाँ

बीमार/वृद्ध/असमर्थ

नेत्रहीन/दृष्टिबाधित

अन्य

स्पष्ट करें

शैक्षणिक योग्यता

निरक्षर

10वीं से कम

मैट्रिक (10वीं)

इंटरमीडिएट (12वीं)

ग्रेजुएट

पोस्ट-ग्रेजुएट और उससे ऊपर

अन्य

स्पष्ट करें

क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के टैक्स देने वाले निवासी हैं?

नहीं

हाँ

(यदि हाँ, तो कृपया अलग से FATCA/CRS घोषणा फॉर्म भरें)

आवेदक के साथ संबंध

जन्म स्थान/पंजीकरण का स्थान

पता 1

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

लैंड मार्क

जिला

देश

भारत

अन्य

वर्तमान शहर में निवास के वर्ष

वर्तमान आवास में निवास के वर्ष

संपत्ति की स्थिति

खुद मालिक

किराये का

कंपनी द्वारा प्रदान किया गया

पैरेंटल

अन्य

पता 2

पता पंक्ति 1

लैंड मार्क

जिला

देश

भारत

अन्य

संपत्ति की स्थिति

खुद मालिक

किराये का

कंपनी द्वारा प्रदान किया गया

पैरेंटल

अन्य

स्पष्ट करें

KYC विवरण

पहचान का प्रमाण

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

आधार

वोटर ID

अन्य

ID नंबर

समाप्ति की तिथि

(यदि लागू हो)

पते का प्रमाण

पासपोर्ट

ड्राइविंग लाइसेंस

आधार

वोटर ID

अन्य

पेशा

वैतनभोगी

सरकारी

स्व-रोज़गार

स्व-नियोजित

कृषि

रिटायर

विद्यार्थी

गृहिणी

अन्य

कुल वार्षिक आय (INR)

1-250000

250001-500000

500001-1000000

1000001-2000000

2000001-2500000

विदेशी करेंसी से जुड़ा जोखिम

हाँ

नहीं

नियोक्ता/बिज़नेस की जानकारी

संस्था/नियोक्ता का नाम

कुल अनुभव नौकरी/बिज़नेस में

वर्ष

महीने

बिज़नेस का नेचर

निर्माता

सेवा देने वाले

ट्रेडर/दुकानदार

थोक व्यापारी

अन्य

बिज़नेस के प्रकार

1.

2.

बिज़नेस की संरचना

व्यक्तिगत मालिकाना हक

पार्टनरशिप फ़र्म

प्राइवेट लिमिटेड

अन्य

संस्था का प्रमाण

{

बिज़नेस परिसर

खुद मालिक (गिरवी रखा हुआ नि:शुल्क)

किराये का

पैरेंटल

अन्य

पता

पता पंक्ति 1

पता पंक्ति 2

शहर

जिला

देश

भारत

अन्य

लैंड मार्क

राज्य

F. लोन के उद्देश्य की घोषणा

लागू की गई सुविधा का इस्तेमाल नीचे उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा (कृपया जो भी लागू हो उस पर टिक करें)

लोन लेने का उद्देश्य

बिज़नेस

Amount required

लोन लेने का उद्देश्य

बिज़नेस

आवश्यक अमाउंट

वर्किंग कैपिटल

कृषि और संबंधित गतिविधियाँ

स्टॉक खरीद

मवेशी की खरीद

दुकान और ऑफिस खरीद

व्यावसायिक निर्माण

प्लांट और मशीनरी खरीद

अन्य बिज़नेस

पूंजीगत खर्च

आवश्यकता

G. मौजूदा लोन की जानकारी

क्रम संख्या

अकाउंट नंबर

संस्था का नाम

अकाउंट/सुविधा प्रकार

अवधि

EMI का अमाउंट (INR)

सुविधा अमाउंट (INR)

1

2

3

4

5

H. संपत्ति की जानकारी जो गिरवी संपत्ति के रूप में दी जा रही है

क्रम संख्या

प्रकार

संपत्ति का नाम

स्थिति

क्षेत्र

पता

1

2

3

फीस और शुल्क की जानकारी (ग्राहक की ओर से कॉपी)

1) स्टैम्प ड्यूटी: वास्तविक रूप से लागू कानून के हिसाब से।

2) _____ % प्रति वर्ष की ब्याज दर

3) प्रोसेसिंग शुल्क (गैर-वापसी योग्य) अगर INR _____

4) चेक//SI/NACH रिटर्न शुल्क: मामलेINR 500/- हर मामले के लिए

5) अतिदेय इंस्टॉलमेंट पर ब्याज: अनुबंधित ब्याज दर पर (लोन IRR)

6) इंस्टॉलमेंट के न चुकाने पर पैनल्टी शुल्क : बकाया इंस्टॉलमेंट पर प्रति ₹1000 (या उसके हर भाग) पर ₹0.65 प्रतिदिन शुल्क लगाया जाएगा

7) कलेक्शन/EMI पिक-अप शुल्क: INR 600,-हर बार के लिए

8) इम्प्लिकेट अमॉर्टाइजेशन / पुनर्भुगतान अनुसूची : मामलेINR 500/- हर मामले के लिए

9) चेक/SI/ECS स्वीपिंग शुल्क : INR 1000/-हर बार के लिए

10) लोन पूर्व-भुगतान शुल्क : <= 12 महीनों की EMI पुनर्भुगतान अवधि : 5% (बकाया मूल राशि पर) > 12 महीनों की EMI पुनर्भुगतान अवधि : 4%

11) अकाउंट का विवरण/फोरक्लोजर विवरण : INR 500/- हर स्टेटमेंट के लिए

ध्यान दें: (1) संबंधित लोन प्रोडक्ट के तहत विस्तृत फीस और शुल्कों के लिए <http://www.aubank.in> पर जाएं। समय-समय पर शुल्कों में होने वाले बदलाव बैंक की वेबसाइट पर अपडेट किए जाते हैं। (2) उपरोक्त सभी शुल्क बैंक के विवेकानुसार समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं। (3) उपरोक्त सभी शुल्क सभी वैधानिक और सरकारी टैक्स को छोड़कर हैं।

I. दस्तावेज़ की चेकलिस्ट

☐ फ़ोटोग्राफ़ (फ़ोटो के ऊपर से होकर हस्ताक्षर करें)	☐ पहचान का प्रमाण	☐ पते का प्रमाण	☐ निवास ऑफ़िस	☐ लोन अनुबंध	☐ 6 महीनों का बैंक विवरण	☐ SSI/MSME पंजीकरण	☐ सुरक्षा पोस्ट डेटेड चेक	☐ हस्ताक्षर वेरिफिकेशन
☐ टर्नओवर प्रमाण (नवीनतम बिक्री/सेवा कर रिटर्न)	☐ पिछले 2 वर्षों का ITR गणना आय के साथ	☐ NACH/SI आदेश	☐ पोस्ट डेटेड चेक	☐ आय मूल्यांकन वक़िग शीट	☐ किराये से जुड़ा अनुबंध (अगर लागू हो, निवास और बिज़नेस के लिए)	☐ पार्टनरशिप फ़र्म के लिए - नवीनतम पार्टनरशिप डीड, फ़र्म का PAN और ऑफ़िस का पता प्रमाण	☐ कंपनी के लिए - निगमन का प्रमाण पत्र, MOA और AOA, PAN, शेयरहोल्डिंग पैटर्न और ऑफ़िस का पता प्रमाण।	☐ बिज़नेस और व्यक्तियाँ मतलब पार्टनर्स/निदेशकों दोनों के लिए आय की गणना के साथ पिछले 2-3 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न (जैसा लागू हो)।
☐ अनुबंध की कॉपी/वर्क ऑर्डर	☐ पुनर्भूगतान ट्रेक रिकॉर्ड	☐ बैलेंस ट्रांसफर/बैलेंस ट्रांसफर और टॉप-अप के लिए लोन अकाउंट का विवरण।	☐ किराये से जुड़ा अनुबंध (अगर लागू हो, निवास और बिज़नेस के लिए)	☐ पार्टनरशिप फ़र्म के लिए - निगमन का प्रमाण पत्र, MOA और AOA, PAN, शेयरहोल्डिंग पैटर्न और ऑफ़िस का पता प्रमाण।	☐ बिज़नेस और व्यक्तियाँ मतलब पार्टनर्स/निदेशकों दोनों के लिए आय की गणना के साथ पिछले 2-3 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न (जैसा लागू हो)।	☐ अन्य कोई भी आवश्यक दस्तावेज़।	☐ कृषि भूमि दस्तावेज़	
☐ वक़िग कैपिटल सीमा के मामले में अगले दो वर्षों के लिए और टर्म लोन के मामले में लोन की अवधि के लिए अनुमानित बैलेंस शीट	☐ अग्रिमों के अधिग्रहण के मामले में, मौजूदा बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ली जा रही सुविधाओं के स्वीकृति पत्र	☐ संस्थानों के बारे में विस्तृत नियम और शर्तें।	☐ प्राथमिक और गिरवी रखी संपत्ति की सिक्योरिटीज़ के रूप में प्रस्तुत की जा रही सभी संपत्तियों की लीज़ डीड/टाइटल डीड की कॉपी।	☐ अनिवार्य लाइसेंस/पंजीकरण/योग्यताओं से संबंधित उद्योग/क्षेत्र विशेष दस्तावेज़।				

J. फ़ीस और शुल्क का विवरण

1) स्टैम्प ड्यूटी: वास्तविक रूप से लागू कानून के हिसाब से।	7) कलेक्शन/EMI पिक-अप शुल्क: INR 600/- हर बार के लिए
2) _____ % प्रति वर्ष की व्याज दर	8) डुप्लिकेट अमॉर्टाइजेशन / पुनर्भूगतान अनुसूची : मामलेINR 500/- हर मामले के लिए
3) प्रोसेसिंग शुल्क (गैर-वापसी योग्य) अगर INR _____	9) चेक/SI/ECS स्वीपिंग शुल्क : INR 1000/- हर बार के लिए
4) चेक//SI/NACH रिटर्न शुल्क: मामलेINR 500/- हर मामले के लिए	10) लोन पूर्व-भुगतान शुल्क : <= 12 महीनों की EMI पुनर्भूगतान अवधि : 5% (बकाया मूल राशि पर) > 12 महीनों की EMI पुनर्भूगतान अवधि : 4%
5) अतिदेय इंस्टॉलमेंट पर व्याज: अनुबंधित व्याज दर पर (लोन IRR)	11) अकाउंट का विवरण/फ़ोरक्लोज़र विवरण : INR 500/- हर स्टेटमेंट के लिए
6) इंस्टॉलमेंट के न चुकाने पर पेनेल्टी शुल्क : बकाया इंस्टॉलमेंट पर प्रति ₹1000 (या उसके हर भाग) पर ₹0.65 प्रतिदिन शुल्क लगाया जाएगा	

ध्यान दें: (1) संबंधित लोन प्रोडक्ट के तहत विस्तृत फ़ीस और शुल्कों के लिए <http://www.aubank.in> पर जाएं। समय-समय पर शुल्कों में होने वाले बदलाव बैंक की वेबसाइट पर अपडेट किए जाते हैं। (2) उपरोक्त सभी शुल्क बैंक के विवेकानुसार समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं। (3) उपरोक्त सभी शुल्क सभी वैधानिक और सरकारी टैक्स को छोड़कर हैं।

L. घोषणा

- मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी और विवरण पूरे, सही, अपडेट किए गए और सत्य हैं, और मैंने/हमने कोई भी जानकारी छिपाई नहीं है।
- मैं/हम पुष्टि करता/करते हूँ कि मेरे/हमारे खिलाफ कोई भी दिवालियापन प्रक्रिया, बकाया राशि की वसूली, एसेट या संपत्तियों की कुर्की या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है और/या न ही लंबित है, और न ही मुझे/हमको किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है।
- मेरे/हमारे खिलाफ किसी भी न्यायालय/अन्य प्राधिकरण द्वारा परिसमापन, विघटन, पुनर्गठन या किसी रिसीवर, ट्रस्टी या समान अधिकारी की नियुक्ति या मेरी/हमारी एसेट्स के लिए कोई कानूनी कार्यवाही या अन्य कदम नहीं उठाया गया है या कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।
- मैं/हम समझते और स्वीकार करते हैं कि AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड को बिना कोई कारण बताए (जब तक कि लागू कानून द्वारा आवश्यक न हो) मेरे/हमारे आवेदन को अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है और AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड ऐसी अस्वीकृति या मुझे/हमें ऐसी अस्वीकृति की सूचना देने में किसी देरी या हमारे आवेदन की ऐसी अस्वीकृति के कारण होने वाली किसी लागत, हानि, नुकसान या खर्च या अन्य नतीजों के लिए किसी भी तरह से मेरे/हमारे प्रति जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।
- AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ और फ़ोटोग्राफ़्स रखने का अधिकार है और ये आवेदक को वापस नहीं किए जाएंगे
- मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड के निदेशक नहीं हूँ/हैं और न ही किसी उधारकर्ता या उसकी सहायक कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी के निदेशक/भागीदार, मैनेजिंग एजेंट, कर्मचारी या गारंटर या पर्याप्त हित के धारक हूँ/हैं। अगर हां, तो कृपया बताएं
- मैं/हम किसी अन्य बैंक या किसी भी बैंक की सहायक कंपनी के निदेशक नहीं हूँ/हैं या बैंकों द्वारा स्थापित म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टी नहीं हूँ/हैं और न ही कोई निदेशक/पार्टनर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट, कर्मचारी या गारंटर या उधारकर्ता के पर्याप्त हित के धारक नहीं हूँ, अगर हाँ, तो कृपया बताएं
- मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड या किसी अन्य बैंक के किसी भी निदेशक से संबंधित नहीं हूँ/हैं, जैसा कि समय-समय पर RBI द्वारा तय दिशा-निर्देशों में परिभाषित किया गया है और साथ ही, हम न तो उधारकर्ता के निदेशक/पार्टनर या प्रमुख शेयरधारक हैं और न ही उधारकर्ता की होल्डिंग या सहायक कंपनी के प्रमुख शेयरधारक या नियंत्रक हैं, अगर हाँ, तो कृपया बताएं
- मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ और पुष्टि करते हूँ कि AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि वह सुविधा अमाउंट से (अगर डिस्बर्समेंट से पहले मेरे/हमारे द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है) उन शुल्कों की अग्रिम रूप से कटौती कर सके, जो स्वीकृति पत्र/KFS और/या सुविधा से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज़ में विशेष रूप से उल्लिखित हैं, और जो सुविधा अमाउंट के डिस्बर्समेंट के समय लागू होंगे। स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड बैलेंस सुविधा अमाउंट मुझे/हमें या मेरी/हमारी ओर से किसी तीसरे पक्ष को, जैसा भी लागू हो, वितरित करेगा, मैं/हम पूरे सुविधा अमाउंट को व्याज सहित चुकाने के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा कि स्वीकृति पत्र में बताया गया है, और इसे बताई गई तिथियों/अवधियों में या जब भी देय हो, चुकाना होगा।
- मैं/हम इस बात का प्रतिनिधित्व, आश्वासन और पुष्टि करते हूँ कि ऑफ़र और उद्देश्य वैध उद्देश्य हैं और हम सहमत हूँ और वचनबद्ध हूँ कि इस लोन का इस्तेमाल सिर्फ़ उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और यह लोन किसी भी अवैध और/या अमान्य विरोधी और/या सहा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसमें स्टॉक मार्केट/POS में भाग लेना शामिल है, लेकिन इतना ही सीमित नहीं है
- मुझे/हमें उस प्रोडक्ट की विशेषताओं के बारे में समझाया गया है जिसके लिए मैंने/हमने आवेदन किया है। मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड के लोन प्रोडक्ट की शर्तों और नियमों को पढ़ और समझ चुके हैं और मैं/हम उनसे बंधे रहने के लिए सहमत हूँ। सुविधा शर्तों में तय सभी नियम और शर्तें सुविधा और उसके संबंध में मेरे/हमारे सभी जिम्मेदारियों (साथ ही AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकारों और उपायों) पर लागू होंगी, अगर मेरे/हमारे द्वारा यहां आवेदन की गई सुविधा मेरे/हमारे आवेदन के आधार पर AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा स्वीकृत और प्रदान की जाती है।
- मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड और उसके सहयोगियों/सहायक/संबद्ध संस्थाओं को अधिकृत करते हैं और उन्हें मेरे ऑफ़िस/निवास पर आकर किसी भी जानकारी को वेरिफ़ाई करने और/या मुझसे, मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे नियोक्ता, बैंकर या क्रेडिट ब्यूरो से संपर्क करने की अनुमति देते हैं और इसके अलावा, मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड की नीतियों के हिसाब से मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज़ों और अन्य सूचनाओं की आंतरिक जांच करने पर कोई आपत्ति नहीं रखते। मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड को मेरी/हमारी प्राप्त सुविधाओं के संबंध में ROC संचय करने और शुल्क लेने के लिए अधिकृत करते हैं।
- मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड को यह सूचित करने का वचन देते हैं कि मेरे/हमारे पते, ईमेल ID, संपर्क नंबर में कोई भी बदलाव हो तो इसकी जानकारी देंगे।
- मैं/हम स्वीकार करते हैं और सहमत हूँ कि AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा मुझे/हमें दी जाने वाली सुविधा इस आवेदन पत्र, स्वीकृति पत्र और इसकी अनुसूचियों (सामूहिक रूप से, "सुविधा शर्तें") के तहत तय नियमों और शर्तों के मेरे/हमारे द्वारा अनुपालन के अधीन होगी।
- मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने जो प्रोसेसिंग फ़ीस का भुगतान किया है, वह किसी भी स्थिति में गैर-वापसी योग्य है, जिसमें सुविधा का अस्वीकार/आंशिक डिस्बर्समेंट/डिस्बर्समेंट शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- समय-समय पर, AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड अपने ग्राहकों को अलग-अलग सुविधाओं/प्रोडक्ट/प्रमोशनल ऑफ़र की जानकारी देता है, जिससे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं और इसके लिए वे तीसरे पक्ष की एजेंसियों की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप इस तरह के लाभों के बारे में सूचित होना चाहते हैं? ☐ मैं/हम AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड को ऊपर दिए गए मार्केटिंग ऑफ़र के संचार के लिए मेरी/हमारी जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करते हैं। (कृपया टिक करें) ☐ मैं/हम ऊपर दिए गए ऑफ़र प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। (कृपया टिक करें)
- मैं/हम AU बैंक कर्मचारी के रिश्तेदार/परिचित हूँ/हैं ☐ हाँ ☐ नहीं अगर हां, तो विवरण यह है: _____
- यह कहा गया है कि ग्राहक/अकाउंट धारक ने सहमति प्रदान की है कि बैंक, RBI के दिशा-निर्देशों या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के हिसाब से, CERSAI या किसी अन्य प्राधिकारी से उसका/उसकी CKYCR नंबर प्रस्तुत करके, उसके व्यक्तिगत विवरण, या कानून के तहत बैंक द्वारा अपेक्षित कोई भी विवरण प्राप्त कर सकता है।
- मैं/हम सहमति देते हैं कि AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड मेरी/हमारी आवश्यक जानकारी, जिसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पता और अन्य जनसांख्यिकीय विवरण शामिल हैं, जो मैंने/हमने AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ शेयर की हैं, उद्यम असिस्ट पोर्टल (www.udyamassist.gov.in) के साथ शेयर करने के लिए मेरी/हमारी सहमति प्रदान करते हैं, ताकि मेरा/हमारा उद्यम पंजीकरण MSME मंत्रालय, भारत सरकार (अगर पात्र हो) के साथ किया जा सके।

नियम और शर्तें: आधार मैं/हम UIDAI द्वारा प्रमाणीकरण के लिए AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपना आधार नंबर, नाम और फिंगरप्रिंट/iris प्राप्त करने के लिए सहमति देते हैं। बैंक ने मुझे बताया है कि मेरी पहचान की जानकारी सिर्फ़ KYC के लिए इस्तेमाल की जाएगी और यह भी बताया है कि मेरे बायोमेट्रिक्स को संग्रहीत/शेयर नहीं किया जाएगा और सिर्फ़ प्रमाणीकरण के उद्देश्य से CIDR के पास सबमिट किया जाएगा।

 मैं अपने WhatsApp मोबाइल/वैकल्पिक मोबाइल नंबर..... पर बैंक से प्रमोशनल कैपेन, मेरे बैंक अकाउंट, लोन, बीमा और अन्य प्रोडक्ट्स और संचार से संबंधित ज़रूरी जानकारी और अपडेट की सदस्यता लेने और प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।

☐ आवेदक के हस्ताक्षर	☐ सह-आवेदक के हस्ताक्षर	☐ सह-आवेदक/गारंटर के हस्ताक्षर
---	--	---

सिर्फ़ बैंक में आंतरिक इस्तेमाल के लिए

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र में उल्लिखित आवेदक के संचार पते पर जाकर आवेदन किया है और आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं।

☐ SO/BM/PBM के हस्ताक्षर	☐ तारीख के साथ RPC/CPC स्टैम्प	☐ RCU हस्ताक्षर और तारीख
---	---	---

आवेदन ID : _____	आवेदन संख्या : _____
हम स्वीकार करते हैं कि हमें श्री/सुश्री/मेसर्स _____ निवासी/स्थित _____ से _____ के तहत INR _____ के लोन के लिए तिथि _____ का आवेदन प्राप्त हुआ है और स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्णय बैंक द्वारा इस आवेदन और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों की प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर सूचित किया जाएगा। (*माइक्रो और छोटे उद्यमों के लिए 14 कामकाजी दिनों में ₹25 लाख तक का लोन अमाउंट।)	
AU स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड हेतु कृपया ध्यान दें: 1. यह सिर्फ़ आवेदन प्राप्ति की तिथि है और इसे हमारे द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के संकेत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस पर निर्णय प्रस्ताव की योग्यता और/या बैंक द्वारा तय शर्तों (अगर कोई हो) के पूरा होने के आधार पर उचित विचार के बाद ही लिया जाएगा। 2. आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब बैंक को सभी आवश्यक विवरण/तारीख/दस्तावेज़ प्राप्त हो जाएंगे। 3. अगर प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है/उस पर विचार नहीं किया जाता, तो आवेदक को इसके कारणों से अवगत कराया जाएगा। किसी भी सवाल के लिए, आप हमें customercare@aubank.in पर मेल कर सकते हैं या टोल फ़्री नंबर: 1800 1200 1200 पर कॉल कर सकते हैं	(हस्ताक्षर और कर्मचारी ID) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता